

Date – 7/7/2020

३. आलूबुखारे का पेड़

शब्द - अर्थ

१. गुठली - बीज
२. समाप्त- खतम

प्रश्न उत्तर

प्रश्न १- मिनी की माँ ने खाने के डब्बे में कितने आलूबुखारे रखे थे ?

उत्तर - मिनी की माँ ने खाने के डब्बे में चार आलूबुखारे रखे थे ।

प्रश्न २- आलूबुखारे का स्वाद कैसा होता है ?

उत्तर - आलूबुखारे का स्वाद खट्टा-मीठा होता है ।

प्रश्न ३- कक्षा के बच्चे किसकी बात सुनकर हँस रहे थे ?

उत्तर - कक्षा के बच्चे मिनी की बात सुनकर हँस रहे थे ।

प्रश्न ४- मेघना ने मिनी को कैसे बुद्धू बनाया ?

उत्तर - मेघना ने मिनी को यह कहकर बुद्धू बनाया कि गुठली पेट में जाने के बाद अब उसके पेट से आलूबुखारे का पेड़ निकलेगा ।

प्रश्न ५- आलूबुखारे कैसे थे ?

उत्तर - आलूबुखारे खट्टे- मीठे और लाल -लाल थे ।

प्रश्न ६- मिनी से क्या गलती हो गई ?

उत्तर - मिनी ने गलती से आलूबुखारे के साथ उसकी एक गुठली निगल ली थी ।

प्रश्न ७ - पेट के अन्दर पेड़ क्यों नहीं उग सकता ?

उत्तर- हवा, मिट्टी और धूप न मिलने के कारण पेट में गुठली से पेड़ नहीं उग सकता है ।

प्रश्न ८- मेघना ने मिनी को बुद्धू क्यों बनाया ?

उत्तर- मिनी ने मेघना को आलूबुखारे खाने के लिए नहीं दिए थे
इसी कारण मेघना ने उसे बुद्धू बनाया ।

किसने कहा ? किससे कहा ?

१. गुठली तुम्हारे पेट के अन्दर चली गई ।

➤ मेघना ने , मिनी से

२. तुम रो क्यों रही हो ?

➤ अध्यापिका ने, मिनी से

३. मैं खाना कैसे खाऊँगी ?

➤ मिनी ने, अध्यापिका से

गृहकार्य

अपने प्रिय फल का चित्र बनाकर उसके बारे में पाँच वाक्य लिखिए।